



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण 1933 (श0)
(सं0 पटना 368) पटना, वृहस्पतिवार, 28 जुलाई 2011

सं0 3एफ-1-04/2003—6926/वि0

वित्त विभाग

संकल्प

27 जुलाई 2011

विषय:—राज्य के सरकारी सेवकों को देय मातृत्व अवकाश 90 दिनों से बढ़ाकर 135 दिन करने एवं पितृत्व अवकाश 15 (पंद्रह) दिन करने की स्वीकृति के संशोधन के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय संकल्प सं0 2498, दिनांक 12 अप्रील 2007 की कंडिका 4(घ) के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि- “मातृत्व/पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही अनुमान्य होगा ।” इसके संबंध में यह स्पष्ट करने की अपेक्षाएं हो रही हैं कि मातृत्व/पितृत्व अवकाश का लाभ सेवा पूर्व जन्मे संतान के अलावे सेवा काल में जन्मे दो संतानों के लिए उक्त अवकाश अनुमान्य होगा या नहीं ।

अतएव उक्त संकल्प की कंडिका-4(घ) को निम्नरूप में स्पष्ट किया जाता है- मातृत्व/पितृत्व अवकाश कर्मचारी के जीवित संतान की संख्या दो से कम होने पर स्वीकृत की जाती है । यदि सेवा में

आने के पूर्व कोई संतान हो और सेवाकाल में भी संतान पैदा हुई हो तो संतानों की सकल संख्या दो से कम होने पर ही यह अवकाश अनुमान्य होगा, अर्थात् दोनों स्थिति में मात्र दूसरी संतान होने तक ही मातृत्व/पितृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी । सकल संतान दो से अधिक होने या तीसरी संतान की स्थिति में मातृत्व/पितृत्व अवकाश देय नहीं होगा । तीसरी संतान के मामले में सरकारी सेवक को अर्जित अवकाश लेना होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 368-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>